

इश - वन्दनम्अनुवाद कीजिए :-

1) सिद्धिबुद्धिपते ! त्वत्त्वं सिद्धिबुद्धिप्रदाय च ।
ब्रह्मभूताय देवेशा । सगुणाय नमो नमः ॥

अनुवाद :- हे सिद्धि और बुद्धि के स्वामी ! हे देवों के स्वामी ! सिद्धि और बुद्धि को देने वाले सगुण ब्रह्मरूप आपको प्रणाम करता हूँ ।

2) मतिदां वरदां चैव सर्वकामफलप्रदाम् ।
केशवरूप प्रियां देवीं वीणाधरतां नमाम्यहम् ।

अनुवाद :- बुद्धि और वरों को देने वाली, सभी इच्छाओं की धारण करने वाली एवं फलों को देने वाली भगवान विष्णु की प्रिय, दाघ में वीणा की धारण करने वाली देवी को मैं प्रणाम करता हूँ ।

3) इशावारूपमिदं सर्वं यत् किञ्च जगत्पां जगत् ।
तेन त्वक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कर-परिबद्ध धनम् ॥

अनुवाद :- इस धरती पर या संसार से जो जड़-चेतन रूप स्थित है, वह ईश्वर से लपाप्त है, अतः त्याग के शेष भोग करो, किसी के धन पर गृध की दृष्टि मत रखो ।

4) सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि परयन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत् ।

अनुवाद :- सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सब शुभ देखें, कोई भी दुखी न हो ।

महाज्ञानी अष्टावक्रः

द्वितीयः पाठः

अनुवाद कीजिए :-

- 1) मिथिलायाः नृपः जनकः आसीत् ।
 अनुवाद :- मिथिला का राजा जनक था ।
- 2) सः घोषणां कृतवान् यत् - यः कोऽपि माम् अपिशति
 तस्य अहं सम्मानं करिष्यामि ।
 अनुवाद :- उसने घोषणा की कि जो कोई मुझे अपदेश देगा मैं
 उसका सम्मान करूँगा ।
- 3) जनकस्य घोषणां श्रुत्वा सम्पूर्ण-भारतं विद्वांसः उपदेशं
 दातुम् आगतवन्तः ।
 अनुवाद :- जनक की घोषणा को सुनकर भारत से विद्वान उपदेश
 आ गए ।
- 4) तेषु कैचन धनप्राप्त्यर्थमपि आग्रहन्ति इति ज्ञात्वा
 जनकः पुनः घोषितवान् यत् समुचित-ज्ञानस्य उपदेशं
 कर्तुं यः विद्वान् असमर्थो भविष्यति सः दण्डनीयोऽपि
 भविष्यति ।
 अनुवाद :- उनमें से कुछ धन प्राप्ति के लिये आये हैं यह
 जानकर जनक ने पुनः घोषणा की कि जो विद्वान ठीक
 ज्ञान का उपदेश देने में असमर्थ होगा वह दण्ड का
 भागी भी होगा ।
- 5) अनया घोषणया बहवः कारागृहं प्रेषिताः ।
 अनुवाद :- इस घोषणा से बहुत से विद्वान जेल भेजे दिये गए ।
- 6) तेषु तत्रैवस्य अष्टावक्रस्य पिता अपि आसीत् ।
 अनुवाद :- उनमें तब रानी अष्टावक्र का पिता भी था ।
- 7) पितरं मोक्षयितुम् अष्टावक्रः जनकस्य इच्छां गतवान् ।
 अनुवाद :- पिता को मुक्त कराने के लिये अष्टावक्र जनक की सभा में गये ।

- 9) अष्टावक्ररूप शरीररूप अष्टौ अङ्गानि वक्राणि आसन् ।
परं सः महाशनी आसीत् ।
अनुवादः अष्टावक्र के शरीर के आठों अंग टेढ़े थे परन्तु
वह महाशनी था ।
- 9) जनकरूप सम्भासदः अष्टावक्रं दृष्ट्वा द्रुहितवान् ।
अनुवादः जनक के सम्भासद अष्टावक्र को देखकर दस पड़े ।
- 10) स्वयं जनकोऽपि द्रुहितवान् ।
अनुवादः स्वयं जनक भी दस पड़े ।
- 11) अष्टावक्रः स्तैन अपमानेन दुःखं न अनुभूतवान् ।
अनुवादः अष्टावक्र इस अपमान से दुखी नहीं हुआ ।
- 12) अपितु सौऽपि द्रुहितवान् ।
अनुवादः अपितु वह भी दस पड़े ।
- 13) तं द्रुशन्तं दृष्ट्वा राजा जनकः उक्तेवान् यत् - "भवतः
द्वारस्य किं कारणम् १"
अनुवादः उसको दसता हुआ देखकर राजा जनक ने कहा -
कि - आपके दसने का कारण क्या है १
- 14) तदा अष्टावक्रः अवदत् - "यैन नृपेण ज्ञानरूप उपदेशकस्य
सम्मानरूप धोषणा कृता अस्ति, तस्य सम्भाषा
नश्वर - शरीररूप महत्वम् अवगम्य द्रुशन्ति जनाः ।
अनुवादः तब अष्टावक्र बोला - जिस राजा के द्वारा ज्ञान के
उपदेश के लिये सम्मान की धोषणा की गई है, उसकी
सम्भा में नाशवान शरीर के महत्व को जानकर लोग
दस रहे हैं ।
- 15) अत्र ज्ञानरूप महिमानं कः अवगमिष्यति १

अनुवादः यहाँ ज्ञान की महिमा को कौन समझेगा, जहाँ (८)

16) अष्टावक्रः वचनं श्रुत्वा सभासदः लज्जिताः अभवन्,
अनुवादः अष्टावक्र की बात सुनकर सभासद लज्जित हुए,

17) राजा जनकः क्षमायाचनां कृतवान्,
अनुवादः राजा जनक ने क्षमा-याचना की,

18) स उपदेशं दातुं प्रार्थितवान्,
अनुवादः उसने उपदेश देने की प्रार्थना की,

19) अष्टावक्रः उक्तवान् - "राजन्, विनयं स्व ज्ञानस्य
भूषणमस्ति यदि भवान् सदुपदेशं श्रोतुम् इच्छति तर्हि
मम गुरुदक्षिणा १"

अनुवादः अष्टावक्र ने कहा - "राजन्, विनम्रता ही ज्ञान का
आभूषण है," यदि आप सदुपदेश सुनना चाहते हैं
तो मेरी गुरुदक्षिणा १

20) "महात्मन् भवान् सम्पूर्णं कोषं गृहीत्वा महाम् उपदेशं
ददातु" इति जनकः उक्तवान्,

अनुवादः महात्मन् भवान्! सम्पूर्ण खजाना रबीकार कर मुझे
उपदेश दीजिए," ऐसा जनक ने कहा,

21) तदा अष्टावक्रः अवदत् - "धन्योऽस्ति राजन्! अन्येषां
भागं गुरुदक्षिणा रूपेण दातुमिच्छति

अनुवादः तब अष्टावक्र ने कहा - राजन् आप धन्य हैं, दूसरों का
दिए-सा गुरुदक्षिणा के रूप में देना चाहते हैं,

22) कोषः तु प्रजानाम् अस्ति,
अनुवादः कोष (खजाना) तो प्रजा का है,

२३) तत्र भवतः अधिकारो नास्ति

अनुवाद: उस पर आपका अधिकार नहीं है।

२४) अन्ते अष्टावक्रः, नृपाय जनकाय शरीररूप अनित्यताविषये
आत्मनः, अमरत्वविषये च उपदेशं दत्तवान्

अनुवाद: अन्त में अष्टावक्र ने राजा को शरीर की अनित्यता
और आत्मा की अमरता के विषय में उपदेशा दिया।

1)

इशानन्दनम्

1) रिक्तस्थान की पूर्ति करो :-

- क) ब्रह्माभूताय देवेश सगुणाय नमो नमः ।
ख) भूतिदा वरदा चैव सर्वकामफल प्रदाम् ।
ग) मा गृध्रः कश्यपस्त्रिदु धनम् ।
घ) मा कश्चिद् दुःखः भाग भवेत् ।

२)

महाज्ञानी अष्टावक्रः

class → 8

1) प्रश्न व उत्तर :-

- क) जनकः कुत्रत्यः नृपः आसीत् ?
 उ०) जनकः मिथिलायाः नृपः आसीत् ।
- ख) सः किं घोषितवान् ?
 उ०) सः घोषितवान् यत्-यः कौडीपि माम् उपदिशति तस्य अंशं सम्मानं करिष्यामि ।
- ग) अष्टावक्रस्य कति अङ्गानि वक्राणि आसन् ?
 उ०) अष्टावक्रस्य अष्टौ अङ्गानि वक्राणि आसन् ।
- घ) अष्टावक्रः कः आसीत् ?
 उ०) अष्टावक्रः महाज्ञानी आसीत् ।
- ङ.) सः कस्मिन् विषये उपदेशं दत्तवान् ?
 उ०) सः शरीरस्य अनित्यता विषये आत्मनः अमरत्व विषये च उपदेशं दत्तवान् ।

२) शब्दों को वर्तमान काल में लिखो -

- क) आसीत् - अस्ति
 ख) कृतवान् - करोति
 ग) उपदिष्टवान् - उपदिशति
 घ) दसितवन्तः - दसन्ति
 ङ.) आगतवन्तः - आगच्छन्त
 च) उक्तवान् - वदति

3) सन्धि - विच्छेद लिखो -

- क) धनप्राप्त्यर्षमपि - धनप्राप्ति + अर्षम् + अपि
- ख) दण्डनीयोऽपि - दण्डनीयः + अपि
- ग) भूषणमस्ति - भूषणम् + अस्ति
- घ) सदुपदेशः - सत् + उपदेशः
- ङ) दातुमिच्छति - दातुम् + इच्छति

4) शब्दों में 'महा' लगाकर शब्द पूरा करो -

- क) ज्ञानी - महाज्ञानी
- ख) दानी - महादानी
- ग) अभिमानी - महा-अभिमानी
- घ) राजा - महाराजा
- ङ) औपधिः - महौपधिः
- च) राज्ञी - महाराज्ञी